

HONDA

Honda India Power Products Limited

Head Office & Works : Plot No. 5, Sector-41, (Kasna)

Greater Noida Industrial Development Area, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) Pin-201310

Tel.: +91-120-2590 100 Fax: +91-120-2590 350

Website: www.hondaindiapower.com CIN: L40103DL2004PLC203950 E-mail: ho.mgt@hspp.com

Ref: HIPP/SE/2021-22/13

June 14, 2021

Corporate Relationship Department

BSE Limited

Registered Office: Floor 25, PJ Towers,

Dalal Street,

Mumbai — 400 001

Listing Department

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G—Block, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai — 400 051

Sub: Newspaper advertisement regarding transfer of shares to IEPF

Dear Sir/Madam,

In accordance with Regulations 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, we enclose copies of the notice published in 'Business Standard' and 'Jansata' on 12th June, 2021 in connection with the shares to be transferred to the Investor Education and Protection Fund pursuant to Section 124(6) of Companies Act 2013 read with Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

You are requested to take note of the same and notify your constituents accordingly.

Greater

Thanking you.

Yours truly

For Honda India Power Products Limited

Sunita Ganjoo

Company Secretary and Compliance Officer

Encl. As above

ICT LIMITED

(CIN NO. L17117PB1946PLC004565)
REGD.OFFICE: VILLAGE CHOHAL, DISTT. HOSHIARPUR (PUNJAB) 146024
Phone: 01882-258780: Fax: 01882-258059 Website: www.jct.co.in, email:jctsecretarial@jctltd.con

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

	(Amount Rs. III lakiis)						
SI.	Particulars 3	QUARTER ENDED		YEAR ENDED			
No.		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020		
1	Total Income from Operations	20615	15199	65730	69305		
2	Net Profit/(Loss) for the period before tax (before exceptional and/or extra ordinary items)	571	(622)	1470	(4457)		
	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extra ordinary items)	571	(622)	1470	(4457)		
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extra ordinary items)	571	(622)	1470	(4457)		
5	Total Comprehensive (Loss)/Income for the period /year (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)	763	(588)	1573	(2894)		
6	Equity Share Capital	20961	20961	20961	20961		
7	Other Equity (Audited)	0	0	13079	10759		
8	Earnings Per Share of Rs.2.50 each (not annualised)						
	Basic (Rs):	0.07	(0.07)	0.18	(0.53)		
	Diluted (Rs):	0.07	(0.07)	0.17	(0.53)		
Notes:							

The above is an extract of the detailed format of Annual finanical results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results of the Company is available on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com, the Stock Exchange where the Company's share are listed and on the website of the Company i.e. www.jct.co.in. The above results are reviewd by audit committee and have been approved by Board of Directors in its Meeting on 11th June, 2021

Figures for the previous period have been regrouped wherever necessary

Date: 11.06.2021

For and on Behalf of JCT Limited SAMIR THAPAR CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR DIN: 00062287

urther, in accordance with the Code of onduct for Prohibition of Inside Conduct for Prohibition of Insider Trading, the trading window had been closed w.e.f., 1st April, 2021 and will remain closed till 48 hours after the conclusion of the board meeting. By order of the Board For Silicon Valley Infotech Ltd Sd/- Santosh Kumar Jain

SILICON VALLEY INFOTECH LIMITED
Regd, Office :10 Princep Street,
2nd Floor, Kolkata - 700072.
E:info@siliconvalleyinfo.ne; slivially@gmall.com
W: www.siliconvalleyinfo.in
Ph.:9133-4002 2880, Fax 97-33-2237 9053
CIN:L15311WB1993PLC061312
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 21st June, 2021 at 11:00

A.M., inter alia, consider and approve audited financial results for the quarter and year ended on 31st March, 2021. The Notice is also available on the Company's website at www.sifconvalleyinfo.in and on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com.and.www.cse-india.com.

Date: 10.06.2021 Mana Place: Kolkata Di

1 2 3

5

7 8 9

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 CIN No.: U67190MH2008PLC187552

DEMAND NOTICE

Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Secutity
Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Tata Capital Housing Finance Limited (TCHFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) rea with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notices dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) (all singularly of together referred to "Obligors") Legal Herir(s) Legal Representative (s) listed hereunder, to pay the amounts mentioned in the respective Demand Noticels, within 60 days from the dato the respective Noticels, as per details given below. Copies of the said Notices are served by Registered Post A.D. and are available with the undersigned, and the said Obligor(s)/Legal Herir(s)/Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to TCHFL, within 60 days from the date of the respective Notice's, the amounts indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in Column (D) till the date of payment and/or realisation, read with the loan agreement and other documents/ writings, if any, executed by the said Obligor(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to TCHFL by the said Obligor(s) respectively.

Loan Account No.		Total Outstanding Due Rs. as on below Dates	Demand Notice		11
	Mr. Praveen Kumar Srivastava, Mrs. Shalini Srivastava	Rs. 20,30,380/- as on 27-04-2021	27-04-2021	7-Jan-21	D A N
Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:-					2

Description of the secured Assets / immovation Properties: Midrigaged Properties: All That Piece And Parcel Of The Apartment No. 9-19/13, 19th Floor, Tower 5, Himalaya Pride, Plot No. GH-10B, Sector-Techzone-IV, Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh - 201301, area admeasuring 948 Sq.Yds. more mentioned in Registered Tripartite Sub Lease Apact

	Mr. Saurabh Nigam, Mr. Bal Krishna Nigam, Mrs. Richa Bhatnagar	Rs. 14,70,942/- as on 27-04-2021	27-04-2021	3-Nov- 2020
Description of the Convey Aposts (Immersable Description (Montregral Description				

Description of the Secured Assets / Immovable Properties: Mortgaged Properties: All That Residential Property- Flat No. 7-1205 On 12th Floor, Tower-7, The Serenas Situated At Sector 36, Sohna Guragon, Haryana, 122004, Having carpet are measuring 583.04 Sq.ft- and also having balcony Area measuring 88-74 sq.ft. more mentioned in Registered Flat Buyer's Agreement having Reg No. 2931 Dated

03/11/2017	, ,	•		
	Mr. Mohammed Etta Shahabuddin	Rs. 26,95,858/- Rs. 75,906/- as on 06/05/2021	06/05/2021	7-Nov- 2020

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: All That Residential Apartment/Flat unit Bearing No-2001, Situated at 20th Floor o Building/Project known as Jazz, Rhythm Ccountry, Constructed on Plot No-GH-16E, Sec 1, Greater Noida (West), Gautam Budh Nagar-UP. 201306- Area Admeasuring 1060 Sq.Ft. With Common Amenities written in Title Document.

9208614	Mrs. Priti Jain,	as on 12/05/2021	12/05/2021	8-Dec- 2020	
Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:- All That Residential Property- Flat/Apartments No- T-8/B-306, 6th Floor Shubhkamna Lords Plot No- SC-01/D-1- Sector-79, Noida-201301, Measuring Area 1500 Sq.ft.					
9785308	Mr. Jitender Madan, Mrs. Kanika	Rs. 32,57,372/- as on 12/05/2021	12/05/2021	8-Dec- 2020	
Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Propertie					

I That Residential Property- Flat Bearing No- 804, Floor 8th Tower Jazz bunty GH-16 E, Sec-1, **Greater Noida-201308 Measuring Area 1280 Sq. Ft.** 9789584 Mr. Aas Mohamad, Mr. Jarina Khatoon

All That Res	Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:- All That Residential Property: Flat Bearing No-1101 Floor 11th Tower At Rhythm Coounty! GH-16E, Sec-1, Greater Noida-201308 Measuring Area 1060 Sq.tt.				
9860252	Mr. Harbinder Singh Anand, Mr. Ajit Kaur	Rs. 19,65,842/- as on 12/05/2021	12/05/2021	9-Nov- 2021	
Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:- All That Residential Property- Flat Bearing No- C-1705, Floor 17th Tower C, At Marina Suites (Fn.21/ Park Town VI H-24 (Brazinad-2010/20 Measuring Area 1195 Sq ft					

12/05/2021 8-Dec-2020 Mr. Pawan Chauhan, Rs.11,08,223/-as on 12/05/2021 Mr. Virendra Chauhan Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: All That Residential Property- Flat Bearing No- 67-E, OCPK/ Lower Ground, Omaxe Canaught Place IV, Sec- Beta II Greater Noida, U.P.- 201301- Measuring Area 172-

Sq.it.						
	Desh Raj Sharma, Mr. Seema Sharma	Rs.11,93,281/- as on 31/05/2021	5/12/2021	3-Dec- 2020		
Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: All That Residential Property- Flat Bearing No- 643, Second Floor Tower – G-2, Omaxe Green Meadows City, Homes, Bhiwadi, Village, Khajuriwas, Tehsil Tijara, Distt Alwar						

hajastilati- 30 140 i weasuring Area 1090 Sq.rt.						
9906628	Mr. Mukesh Kumar, Mrs Pooja	Rs. 30,77,207/- as on 12/05/2021	12/05/2021	8-Dec- 2020		
Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:- All That Residential Property- Flat Bearing No- 1805, Floor 18th Tower Jazz At Rhythm						
County GH-16 F Sec-1 Greater Noida-201308 Measuring Area 1060 Sq. Ft.						

	9846646	Mr. Gaurav Kumar, Mr. Sourav Kumar	Rs. 22,42,644/- as on 12/05/2021	12/05/2021	9-Nov- 2020		
ı	Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:- All That Residential Property- Flat Bearing No- C-0305, 3rd Floor, Tower-c In Marin Suites, GH-3/1, Park Town, Nh-24, Ghaziabad (U.P.) 201301 Measuring Area 1195 Sq.ft.						
ı	9946390	Mr. Rajivhad.	Rs. 20,55,376/-	13/05/2021	9-Nov-		

Mrs. Vishwajit Kaur as on 13/05/2021 2020 Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties
All That Residential Property- Flat Bearing No 1802, Floor 18th Tower Trance A
Rhythm Ccounty Gh-16 E, Sec-1, Greater Noida - 201308 Measuring Area 1060 Sq.Ft. 10169238 Chhabi Malhotra, Rs.12,29,149/-as on 13/05/2021 8-Apr-2021 2021

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: All That Residential Property- Chabbi Design Studio 203, 2nd Floor, 6 Dif Indi Area, Mot Nagar, Najafargarh Road-110015, Delhi, Measuring Area 264-375 Sq.Ft.

10009400 Mr. Pawan Kumar Rs. 44,69,719/-as on 13/05/2021 Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:

r Jazz At Rhythn All That Residential Property- Flat Bearing No- 2206, Floor 23rd Tower Jazz County' Gh-16 E, Sec-1, Greater Noida-201308 Measuring Area 1360 Sq.Ft. 9993963 Mr. Sunil Kumar Singh, Rs. 23,80,636/-as on 13/05/2021

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties All That Residential Property- Flat Bearing No. B-2306, 23rd Floor, Marina Suites, G.H 3/1, Park Town, Nh-24, Ghaziabad (U.P.) Measuring Area 1135 Sq.Ft. Rs. 20,67,814/-as on 15/05/2021 10108300 Mr. Arun Mittal, Mrs. Shikha Mittal

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: All That Residential Property: Flat No. 2201, 22nd Floor, Tower Trance, Rhythm County Plot No. GH - 16E, Sector- 1, Greater Noida-201301, Uttal Pradesh, Measuring Area 1060 Sq.ft. 14/05/2021

10049091 Mr. Narender Kumar Jasrotia, Mrs. Reeta Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaget Properties:- All That Residential Property- Flat Bearing No - 2106, 21st Floor Towe

Jazz At Rhythm Ccounty' Gh-16 E, Sec-1, Greater Noida-201308 Measuring Are

10330695 Mr. Jitin Arora, Mrs. Veena Arora Rs. 13,62,642/-as on 20/05/2021 pris. veerna Arora as on 2005/2021 2 2021
Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties All That Residential Piot Land Having Municipal No-577 (Old No-520), constructed on Pic No-21 Situated at Purva Jugal Kishore, Present Mohall Devpuri, Meerut, Uttar Pradest 500002, Area Admeasuring 250 Sq. Yards i-e- 209-03 Sq. Mtr. With Commo Amentities Written in the Sale Deed- Bounded By: Morth: 59 Ft-2-1/2 Inch than Hous of Other, West: 38 Ft- than 15 Feet Wide Road South: 59 Ft-2-1/2 Inch than House of Other, West: 38 Ft- than 15 Feet Wide Road South: 59 Ft-2-1/2 Inch than House of Hairsh Kathuría

Court of the Incitation to Court and Incitation to Cou						
10243464, 10093812	Mr. Pradeep Nair, Mrs. Jaya Pradeep	Rs. 42,26,980/- as on 14/05/2021	14/05/2021	9-Nov- 2020		
Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:- All That Residential Property- Flat Bearing No. 1606, Floor 16th Tower Jazz At Rhyh, Country Pol No. 16E. Sec. J. Greater Nolda-201308 Measuring Area 1360 Sp Et						

10117031	Mr. Sameer Saurabh Ojha, Mrs. Sushila Pradhan	Rs. 30,50,093/- as on 14/05/2021	14/05/2021	8-Dec- 2020			
Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:- All That Residential Property- Flat Bearing No- 2103, Floor 21st Tower JAZZ at Rhythm County Gh-16 E. Sec-1, Greater Noida - 201308 Measuring Area 1280 So Ft							

Jooding on	county on to 2,000 t, drouter troids 20 to 00 medical ingrates 1200 oq 1						
10149937	Mr. Fateh Singh, Mrs. Baljeet Kaur	Rs. 24,91,985/- as on 14/05/2021	14/05/2021	9-Nov- 2020			
Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: All That Residential Property- Flat Bearing No- 1804, Floor 18th Tower Trance Al Rhythm Ccounty' GH-16 E, Sec-1, Greater Noida-201308 Measuring Area 1280 Sq.Ft .							
10161499	Mr. Sohit Mehra, Mr. Jyoti Mehra	Rs. 29,36,172/- as on 14/05/2021	14/05/2021	8-Dec- 2020			

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties All That Residential Property- Flat Bearing No- 2203, Floor 22nd Floor Tower Jazz Rhythm Ccounty Gh-16 E, Sec-1, Greater Noida-201308 Measuring Area 1280 Sq Ft 10219453 Mr. Sanjay Kumar, Rs. 19,19,745/-14/05/2021

Mr. Pawan Kumar Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties All That Residential Property- Flat Bearing No- D-412, 4th Floor, Tower-D, Urbani Trinity-NX Plot-6A Teachzone- Greater Noida - 201308 Measuring Area 595 Sq Ft

0253857 Mr. Sanjeev Verma, Mr. Basant Lal, Mr. Sunita Verma	Rs. 24,67,036/- as on 14/05/2021	14/05/2021	8-Nov- 2020
Description of the Secured Assets / Imm III That Residential Property- Flat No- 1			

Hra 11- Surajpur Site-C, GH-02, Greater Noida, 201308, Measuring Area 975 Sq Ft 10393522 Mr. Pinku Nayak, Mrs. Rabita Nayak, Rs. 27,48,104/- 14/05/2021 4-Dec as on 14/05/2021 2020

	mio. Habita Hayan,	45 511 1-755 2521		2020		
Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:- All That Residential Property- Flat Bearing No. 1505,15th Floor, Tower- Trance Rhythm County- GH-16E, Sec-1, Greater Noida (West)- 201308						
10465851	Mr. Mohd Javed,	Rs. 25,75,981/- as on 14/05/2021	14/05/2021	3-Feb-		

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: All That Residential Flat/Apartment Bearing Unit No-704, Situated at 7th Floor in Tower C Project Known as Avalon Regal Court, Sector-57, Alwar bye Pass Road, Bhiwadi Rajasthan-30119-Area Admeasuring 1150 Sq-Ft-With Common Amenities Writter in The Title Document

	Ms. Kanchan Sharma	as on 14/05/2021		2020
Description	of the Secured Assets / Imm	ovable Properties /	Mortgaged Pro	perties:
	idential Flat/Apartment Bearing			
	n as Panchsheel Hynish, GH-0			
Hitter Burnels	004004 O-I	4 -l 4 000	O E. M.	O

Pe 15 70 022/- 14/05/2021

	Singh, Ms. Akanksha Singh	as on 14/05/2021	14/05/2021	20
	of the Secured Assets / Imm			
	idential Flat/Apartment Bearing			
Decident/ Dui	Idina Kasuus on Voibbou Hori	logo Holabto at CH (ME Contor 10	0

Project/ Building Known as Vaibhav Heritage Heights at GH-01E, Sector-16, Greate Noida West- Noida, Uttar Pradesh-201301- Area Admeasuring 955 Sq- Ft- Witl Common Amenities Written in The Title Document Rs. 15,51,278/- 15/05/2021 2-Jan-10464438 Tira Devi.

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties All That Residential Property Flat No- A-118, Tower No- 23, Block No- 22, 1st Floot Dinesh Nagar.near Moholla Rampur, Pilakhwa Ghaziabad-245304, Uttar Prades leasuring Area 950 Sq.ft. Rs. 21.30.092/-10623274 Nirmal Kumar Mukul, 15/05/2021

Ms. Kamini Kumari as on 15/05/2021 Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties All That Residential First Floor, Without Roof Rights (Right Side), Land Area measuring 50 Sq-yards, Along with one small car parking space on Still Floor area. Build on Propert No-63, out of Khasra No-148, Stutaed in the area of village Bindapur, Deli Estate Colom A-Block, Nand Ram Park, **Uttam Nagar New Delhi-110059 - With Common Amenities**.

550664	Mr. Surender Singh, Mrs. Neelam	Rs. 66,63,86/- as on 18/05/2021	18/05/2021	9-Mar- 2021				
scription	scription of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:							
That Res	idential Property Bearing Hous	se No- 3838/LIG/GF, I	Pocket-II, Gro	und Floor				
uated at	Housing Board Colony, Sector	r-3, Faridabad, Tehs	il, Ballabgarh	, District-				

aridabad, Haryana-121002 Area admeasuring 15-69 Sq.Mtr. With co menities written in the Title Deed. 787871 Mr. Dinesh Goswami, Rs. 19,78,935/- 19/05/2021 8-Dec-

	IVIIS	. IVIOI	IIII GUSW	aiiii	as on i	3/03/2021		2020
Description	n of	the	Secure	d Assets	/ Immo	ovable Pr	operties /	Mortgaged
roperties:	- Sch	nedul	e – A -	All that	piece and	parcel of	the immovat	ole property
earing Flat	l No-	1508	, admeas	uring 940	1-00 sq- ft	- (Super A	ea) on the 1	5th Floor in
ower A6, ii	η Ηοι	using	Complex	known as	s "Habited	h Panchta	va", situated	at Plot No-

H-8A, Tech Zone - IV, Greater Noida (West), Uttar Pradesh 9127268 Mr. Abdul Sami, Mrs. Naghma Band Rs. 39.40.621/-19/05/2021 8-Dec 2020 Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties All that piece and parcel of the immovable property bearing Flat No. E-102, admeasurin 1198 Sqft. of super area, on First Floor, of the building named as Jaipuria's Sunrise Green:

Situated at Plot No.12A, Ahinsa Khand, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh

with further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in respective Demand Notices dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges et incurred till the date of payment and/or realization. If the said Obligor(s) shall fail to make payment to TCHFL as aforesaid, then TCHFL shall proceed against the above Securer Asset(s)/Immovable Property(ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the content of the said Obligor(s) and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the content of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the content of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the content of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the content of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the content of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the content of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the content of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the content of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the content of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the content of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the content of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the content of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as the said Obligor(s)/Legal R

The said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property(ies), whether by way sale, lease or otherwise without the prior written consent of TCHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall table for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

DATE : 12-06-2021, PLACE : DELHI Sd/-Authorised Officer FOR TATA CADITAL HOLIGING FINANCE LIMITED

HONDA

Honda India Power Products Limited

Regd. Office: 409, DLF Tower B, Jasola Comme

CIN: L40103DL2004PLC203950

Website: www.hondaindiapower.com | F-Mail: hol-gal@bspp.com

tee in pursuance to Section 12460 of Companies Act, 2013 and Rule 6 of Investor Educ
and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016

Notice in pursuance to Section 124(6) of Companies Act, 2013 and Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016

This notice is published in pursuance to the provisions of Section 124 of Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules"). The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all those shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has, already transferred to the EPF Authority during the Financial Year 2020-211.e. on November 27, 2029 all those shares in respect of which dividend had been lying unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more as on the due date of transfer. The Company has also individually communicated to the concerned shareholders whose shares are due to be transferred to IEPF Authority during the Financial Year 2021-22 for taking appropriate action. The complete details of such shareholders whose shares are due to be transferred to IEPF Authority in the Financial Year 2021-22 are available on the website (www.hondaindapower.com/dividend-iepf). The Shareholders may note that in case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by August 31, 2021, the Company shall, with a view to comply with the requirements set out in the Rules, dematerialise and transfer the shares to IEPF Authority, for the purpose of dematerialisation, the Company shall, with a view to comply with the requirements set out in the Rules, dematerialise and transfer the shares to IEPF Authority, for the purpose of transfer of the Company shall, with a view to comply with the requirements set out in the Rules and upon such issue, the original certificate(s) which stands registered in the shareholders may fur

For Honda India Power Products Limited Sunita Ganjo Place : Greater Noida Date : June 11, 2021 Company Secretary

10 Basic and Diluted Earnings Per Share(EPS) -before extraordinary item (Face Value

Rs. 02/- each) - From discontinuing Operation

Prakash Industries Limited

COMPANY NOTICE

It is hereby notified for all concerned that the following Shares are reported to have been lost and there is a request for issue of duplicates thereof. Particulars are as under:

Certificate Nos. Distinctive Nos. Folio No. Name of Shareholder 14180367 - 466 074432 142985 Bimlawati Kapur 451173 54817606 - 655 Kindly note that if no objection is received from any person(s) within 15 days from

the date of publication of this notice, duplicate Share Certificates would be issued.

For Prakash Industries Limited Ashwini Kumar (Company Secretary)

Office of U.P. Cooperative Cane Unions Federation Ltd. 12 Rana Pratap Marg, Lucknow, Uttar Pradesh

E-Tender Notice

E-tender, reference no. 188/ERP Dated 13.05.2021, is invited by M.D., U.P. Cooperative Cane Unions Federation Ltd., Lucknow on behalf of The Cane Commissioner, U.P. Registrar, Cooperative Cane Development Societies, U.P. from the eligible vendors for nnual Maintenance Contract for ERP System including Enhanceme lanpower, and Call Center Management for 5 years.

Bid document/ tender detail is available on https://etender.up.nic.in from 09.06.2021 (6.55PM onwards) to 06.07.2021 (up to 6.55 PM) which can be downloaded from website. Filled documents must be submitted/ uploaded online on the above mentioned website till 06.07.2021 (up to 6.55 PM). Technical bids will be opened on 07.07.2021 at 11:00 AM.

ORICON

CIN - L28100MH1968PLC014156

Registered office: 1076, Dr. E. Moses Road, Worli, Mumbai - 400018; E-mail Id: share@ocl-india.com. Website: www.oriconenterprises.com; Tel No.: 022-43226600; Fax No.: 022 24963055

	EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FO	R THE QUA	ARTER/YEA	R ENDED N	IARCH 31. 2	2021	
					(Rs. In Lakhs	s, except EPS)	
			Quarter ended		Year e	ended	
Sr. No.	Particulars Particulars	31.03.2021 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	
	Total Income from Operations (Net)	19066.14	19159.36	19609.72	63323.59	88961.75	
:	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	63.07	613.00	298.30	(2390.97)	1993.78	
,	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(134.41)	789.76	98.27	(1057.31)	2293.75	
1	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) - Continued Operations	(538.09)	820.73	(109.59)	(1008.97)	2442.50	
,	Net Profit / (Loss) for the period after tax from discontinued Operations	242.83	125.98	(56.57)	303.48	116.97	
i	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2093.71)	4006.62	(1285.65)	5892.29	1251.69	
	Equity Share Capital	3140.95	3140.95	3140.95	3140.95	3140.95	
	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance sheet of previous year)				69365.70	63595.15	
)	Basic and Diluted Earnings Per Share(EPS) -before extraordinary item (Face Value Rs. 02/- each) - From Continuing Operation	(0.07)	0.32	(0.17)	(0.25)	1.39	

Key Standalone Financial Information for the Quarter/ Year Ended March 31, 2021

0.05

						(RS. In Lakns)		
Sr.	Particulars		Quarter ended		Year ended			
No.		31.03.2021 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)		
1	Total Income from Operations (Net)	13820.12	9063.93	11480.06	37772.30	57994.11		
2	Profit Before Tax	994.77	(83.70)	374.34	957.74	3910.58		
3	Net Profit After Tax	664.28	13.17	413.55	897.18	3410.75		
Note	oton:							

The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter/ Year ended March 31, 2021 filed with the Stock Exchange (s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results is available on Stock Exchange(s) website (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on Company's website (www.oriconenterprises.com)

> Rajendra Somani (DIN - 00332465)



Place : Mumbai Date: June 11, 2021

MINDTREE LIMITED

0.05

(0.03)

Registered Office: Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bengaluru - 560059, Karnataka, India. Corporate Identity Number (CIN): L72200KA1999PLC025564 Phone: + 91 80 6706 4000 ¦ Fax: +91 80 6706 4100 E-mail: investors@mindtree.com | Website: www.mindtree.com

INFORMATION REGARDING TWENTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), BOOK CLOSURE DATE FOR FINAL DIVIDEND

1. The Twenty Second Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through VC / OAVM on Tuesday, July 13, 2021 at 4:00 PM IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the businesses set forth in the Notice of the AGM 2. The Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2020- 2021 will be sent to all the shareholders in electronic mode whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participant(s). The notice of the AGM and Annual Report for Financial Year 2020-21 will also be available on the Company's website, at https://www.mindtree.com/about/investors, Stock Exchanges websites - www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the NSDL's website, at https://www.evoting.nsdl.com.

3. Shareholders holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email address with the Company, are requested to register/update their email IDs on the following link: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html. Shareholders holding shares in Demat form who have not registered/updated their email address, are requested to update their details with their Depository Participants (DPs).

4. Shareholders can participate in the AGM through VC/ OAVM only. The detailed instructions for such participation has been provided in the AGM Notice. Members attending the AGM through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of quorum in terms of Section 103 of the Companies Act. 2013.

5. Manner of casting vote through e-voting:

y on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting system. Shareholders can cast their vo b. The detailed procedure for casting the votes through e-voting has been provided in the AGM Notice

6. The Board of Directors at its meeting held on April 16, 2021 has recommended a final dividend of Rs.17.50/- per equity share of face value of Rs.10/- each. The Book closure date for the purpose of AGM and Final dividend for the Financial Year 2020- 21 will be from Wednesday, July 7, 2021 to Tuesday, July 13, 2021 (both the days inclusive). The final dividend, once approved by the shareholders in this ensuing AGM will be paid on or before July 31, 2021, electronically through various online transfer modes to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand

drafts/ cheques will be sent to their registered addresses depending on the availability of postal services. 7. To enable direct credit of dividend to your bank account, shareholders are requested to update their bank details with their Depository Participant(s) (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (where shares are held in physical mode) in the link :<u>https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html.</u>

8. The Income Tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 2020, mandates Companies to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates on the dividend paid to its shareholders. Further, the Finance Act, 2021 has inter alia inserted the provisions of section 206AB of the Act with effect from July 1, 2021. The provisions of Section 206AB of the Act require the Company to deduct tax at higher rates as mentioned from amount paid/ credited to persons who have (a) not filed return of income for both of the two assessment years relevant to the two previous years immediately prior to the previous year in which tax is required to be deducted, for which the time limit of filing return of income under sub-section (1) of section 139 has expired; and (b) subjected to tax deduction/collection at source in aggregate amounting to Rs.50,000 or more in each of such two immediate previous years. Shareholders may be requested to upload/provide declaration on the compliance with the provisions of Section 206AB of the Income Tax Act.

9. Therefore, the Company is required to deduct TDS as applicable at the time of making payment of Final dividend. To enable compliance with respect to TDS, Shareholders are requested to complete and/or update your Residential Status, PAN, Category with their DPs or in case share are held in physical form with the Company/RTA by uploading the document in the link https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html.

10. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them as above and accepted by the Company, Accordingly, the above referred Final Dividend will be paid after TDS as applicable 11. This notice is being issued for the information and benefits of all the Shareholders of the Company in compliance with the applicable Circulars of the MCA and the SEBL

For Mindtree Limited Sd/-Subhodh Shetty

Company Secretary ACS-13722

This PDF was originally uploaded to Business Standard Newspaper - ePaper (https://t.me/bs_epaper). Subscribe now to get this edition before anyone else!! Backup channel: @news_backup

Place: Bengaluru

Date: June 12, 2021

HONDA

होण्डा इंडिया पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (पूर्व होण्डा सिएल पॉवर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड) 409, डीएलएफ टॉबर बी, जसोला कॉमॉलंबल कॉम्पलेक्स, वई दिल्ली-110025 कीआईएन : L40103DL2004PLC203950

वेबलइट: www.hondaindiapower.com | ई-मेल: ho.legal@hspp.com कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) तथा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 6 के अनुपालन में सूचना

(लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियम, 2016, यथा संशोधित (''नियम'') के अनुपालन में प्रकाशित है। अन्य बातों के साथ-साथ नियमों में उन सभी शेयरों के परिप्रेक्ष्य में अन्तरण हेतु प्रावधान शामिल हैं जिनमें विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में लगातार सात वर्षों तक लाभांश प्रदत्त नहीं हैं या दावे नहीं किये गये हैं। नियमों में निर्धारित विभिन्न वांछनीयताओं के अनपालन में कम्पनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अर्थात 27 नवम्बर, 2020 को उन सभी शेयरों को पहले ही आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरित कर दिया है जिसके परिप्रेक्ष्य में लाभांश अन्तरण की नियत तिथि तक लगातार सात वर्षों या इससे अधिक समय तक अदत्त या दावारहित थे। कम्पनी ने उन सम्बन्धित शेयरधारकों से व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क किया था जिनके शेयर उचित कार्यवाही करने हेतु वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरित किये जाने शेष थे। वित्त वर्ष 2021-22 में आईईपीएफ प्राधिकरण को अन्तरित किये जाने वाले शेयरों के ऐसे शेयरधारकों के पूर्ण विवरण वेबसाइट (www.hondaindiapower.com/dividend-iepf) पर उपलब्ध हैं। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि यदि कम्पनी 31 अगस्त, 2021 तक लाभांश का कोई दावा सम्बद्ध शेयरधारकों से नहीं प्राप्त

करती है तो कम्पनी नियमों में निर्धारित वांछनीयताओं के अनुपालन की दुष्टि से शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में डीमैटीरियलाइज तथा अन्तरित करेगी। डीमैटीरियलाइजेशन के उद्देश्य से कम्पनी भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों तथा जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरित किये जाने शेष हैं के मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के स्थान पर नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण में शेयरों को अन्तरित कर देगी तथा इस मुद्दे पर, मूल प्रमाण पत्र जो शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत होगा वह स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और इसे नॉन-नेगोशिएबल

शेयरधारक पुनः ध्यान दें कि कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट पर अपलोड किये गये विवरणों को अन्तिम माना जाये और आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अन्तरण के उद्देश्य हेतु कम्पनी द्वारा नये प्रमाणपत्र(त्रों) के निर्गमन के परिप्रेक्ष्य मे नियमों के अनुपालन में पर्याप्त सचना मानी जायेगी। विषयगत मामलों तथा नियमों सम्बन्धी किसी अन्य पछताछ के लिए शेयरधारक श्री श्रवण मंगला, मैसर्स मास सर्विसेज लिमिटेड, यिनटः होण्डा इण्डिया पॉवर प्रॉडक्टस लिमिटेड, टी-34, दसरी मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020, दुरभाषः 011-26387281/82/83, फैक्सः 011-26387384. ई-मेलः info@masserv.com. वेबसाइटः www.masserv.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

> कते होण्डा डण्डिया पॉवर प्रॉडक्टस लिमिटेड सुनीता गंजू

> > कोटक स्स्रिक्सिकातालीका Bankr Eminika

एसबीएफसी फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड

(तात्कालिक स्मॉल बिजनेस फिनक्रेडिट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सीएंडबी स्क्वॉयर, संगम कॉम्पलैक्स,

ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059

मांग सूचना

जैसा कि नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों ने रिलायन्स होम फाइनांस लि. (''आरएचएफएल'') से ऋण प्राप्त किया था। एसाइन्मेन्ट प्रलेख के अनुसार आरएचएफएल

ने वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा अन्य अधिकारों को प्रतिभृतिकरण न्यास के पक्ष में अंतरित एवं सौंप दिया। बाद में प्रतिभृतिकरण ट्रस्ट ने अंडरलाइंग प्रतिभृतियों के प्रवर्त्तन सहित

इस प्रकार के अन्य कार्यों को पूरा करने के लिये एसबीएफसी फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड को नियुक्त किया। हम स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त किये होने के बावजूद

ऋणधारकों/मार्टगैजरों ने नियत तिथि के अनुसार ब्याज तथा मूलधन राशि के पुनर्भुगतान में कई चूक की। बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नीचे वर्णित

संबंधित तिथियों को खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। पुनः वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन

अधिनियम, 2002 (''सरफैसी अधिनियम'') के अंतर्गत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों

का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने यहां नीचे वर्णित तिथियों को मांग सूचनाऐं जारी कर ऋणधारकों/मार्टगैजरों को सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना

में वर्णित राशि के साथ सूचना में वर्णित राशि पर अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के भुगतान का निर्देश

बकाया ऋण

(रुपये अठारह लाख अस्सी हजार मात्र)

(रुपये उन्नीस लाख इक्यासी हजार छः सौ

पंचानवे मात्र) 24 अप्रैल, 2021 को

ये सूचनाऐं उनके अंतिम ज्ञात पते पर जारी की गई जो बिना सर्व हुए वापस लौट आई अतः इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा उन्हें उसके विषय में सूचित किया जाता हैः

RHLPJOD000066102

ऋण राशि: रु. 1880000/-

बकाया राशि: रु. 1981695/-

RHLPJOD000058929

ऋण राशि: रु. 3050000/-

बकाया राशि: रु. 3106663/-

(रुपये तीस लाख पचास हजार मात्र)

तिडेसठ मात्र) 24 अप्रैल, 2021 को

(रुपये इक्कतीस लाख छः हजार छः सौ

ऋण खाता सं.:

(PR00709986)

ऋण खाता सं.

(PR00708993)

स्थान : ग्रेटर नोएडा तिथि : 11 जून, 2021 कम्पनी सचिव

आस्ति की ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री

KOTAK W無調NDRA電路N網提到WITED RegisterieerOppice: २१म्छार्स्टर व्याः G-Brock विकेतनि Kurtili Complex: बीधानकार्यादन Munimbrical abareshira: न्यॉन छल्लेब्स्सर ०५% Branch Office: Ploting. 1. F Plootyneaf Dell Campus Sector 25 Norda, 0.92 20 731;

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-auction Sale N**ात्रका Ferr-प्रतिद्धो**ं जिल्ली निकार कि कि कि स्वाप्ति है कि स् Ranagnatruction Afficinancial Assets And Fentorsement Off Sometity नेवांकरका Act, 2092 समित्रका Rale Ale Desad Nation Rute के स्वीत के प्रतिकार के प्रतिकार के स्वीत स्वीत के स्वीत स THE RESIDENCE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PRO

ऄॣख़ऻऻज़ॗढ़ॸॱॿॴ<mark>ऻॴढ़॔Sक़॓ॴॎग़ऻ॓ॡॹ</mark>ॺढ़<mark>ऻज़ग़ॱॾफ़ऻॹऒॎऄऒढ़फ़ॏढ़ॹॏढ़ॹय़ॹॹॹॹड़ऄढ़ज़फ़ॹ</mark>ढ़ढ़ऄढ़ऻ॔ऄढ़ऄऄ BENTESNT STOCKORD FOR BENEAU GEORGE SERVENT FOR THE PROPERTY OF THE PROPERTY O **७, इ.ए.२० भेरे**ग-(तीक) ब्लाइ के इस्तार कि सार कि सार कि सार कि सार के साम कर कर के साम के साम के साम कर कर के स Wenty Tribusand Oaly) 8717 Socia Alumblés Andreas Fibate Of Subanisio Front with 1400 is 20 0주국02대년한 To ਰੋਟ0입ਰ, raryist. ਮੋ& Đate Offins section: 14-07-2021 Between 11:00 Am To 4:00 Pm (ist Revenue Bstate Of Village Sambara drivatile tibur y Bethin, Winter Stants im Latvora Street 1908-Which h Borunded स्टिन्स्य व्यवस्थाति । क्रिक्तीपार्य (विकालिक के देशको । Weste शिक्की गांधी त्यापिक स्थापिक की हो। संकालक

Signeth: Segĭathei Raestaeक्षिण : प्लॉट का भाग। Tप्रकृष्टिकारकारिक स्वराहित स RespectsOfThesTimeAvailableं ति कित्य के अध्याप्त के अध्यापत के अध्य | P क्षिपंधिप्रक्षित्र निर्मेष्ठ कि स्वेशेष्ठ स्थित हो । जिल्ले हो अधिक क्षिप्रकार कि स्वाप्त के अधिक क्षिप्त क Myhakaacker y Jalein Secured Eredijah Mayo Enginsan Sepürity, Jaterest Byh Wayo Ofto aleo Alvanugi |Private:Traaty, In Case.Of Any Clarification/cequirement Regarding Assets Under Sale, Bidder Ma Coptact Mr. Rajender Dahiya (+91,8448264515) Mr. Somesh Sundrival (+91,9919563492 And Min Prashant Gautame (+91,9643615436), Fordetailed Jarms And Conditions Of The Sale lease Refer To The Hink Https://www.kotak.com/en/hank-auctions.html.shroyidedin

एनपीए की तिथि

27 अप्रैल,

2021

एनपीए तिथि

31 मार्च, 2021

27 अप्रैल,

2021

एनपीए तिथि

31 मार्च, 2021

ahindra Bank Website I.e. Www.kotak.com And/or On Https://kotakbank.auctiontiger.net

Date 10:0612026.2021

SBFC

ऋणधारक का नाम एवं

3. चंचल स्क्रैप एंड स्किन मर्चेन्ट

भगत सिंह सर्किल, वार्ड नं. 15, बलोत्रा,

डीटीओ कार्यालय के पीछे, राजस्थान-

ट्रस्ट का नाम: इंडियन रिसीवेबल ट्रस्ट

ए 23 सैकंड एक्स्टेंशन, डिफेंस कॉलोनी

टस्ट का नाम: इंडियन रिसीवेबल टस्ट

कमला नेहरू नगर, जोधपुर, जोधपुर, डिफेंस

Bank of India

गणों के जांच की तारीख

दिनाकः 09.07.2021

19-सिरीज-3, तिथि 21 फर. 19

कॉलोनी, राजस्थान-342001

19-सिरीज-4 तिथि 21 फर. 19

1. शंकर लाल चंदेल

ट्रस्ट का पता

2. समन देवी

4. सुनील कुमार

1. आनंद शर्मा

2. रुचिता शर्मा

दक्षिण पश्चिम रेलवे

निविदा सचना सं. 12/2021 दिनांक : 08/06/2021 अधोहस्ताक्षरी भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित मदों की आपर्ति हेत केवल आईआरआरईपीएस के माध्यम से ई-निविदाएं आमन्त्रित करते हैं : निविदा बन्द होने का समय : 14.00 बजे

क्र.सं.	निविदा सं.	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	निविदा की
				नियत तिथि
1	18211229	ईएमडी पार्ट के लिए स्विच रोलर	1575 नग	21.06.2021
2	38211027	1500* 500*5 मिमी साइज का पैनल पैच प्लेट	3760 नग	28.06.2021
3	38211025	1500* 320*5 मिमी साइज का पैनल पैच प्लेट	4070 नग	28.06.2021
4	33211026	बॉल ज्वाइंट ट्रैक्शन लीवर	4500 नग	26.08.2021
5	56211085A	लेड एसिट मेंटीनेंस सेकेन्डरी सेल 2 वोल्ट 300 एएच क्षमता	1241 नग	30.06.2021
6	38211023	1500* 1200*5 मिमी साइज का पैनल पैच प्लेट	2400 नग	28.06.2021
7	77211024	पेन्ट इनामेल बुशिंग	24420 लीटर	24.06.2021
8	45211301	कपलिंग सॉकेट असेम्बली	50 नग	28.06.2021
9	30211250	ब्रेक गियर बुशेज की किट	1168 सेट	25.06.2021
10	17211004	स्प्रिंग असेम्बली रबर	560 नग	24.06.2021
11	81211136	डीआरडीओ एनारोबिंग बैक्टीरिया विशिष्टि सं. RDSO/2013/CG-12.	841840 लीटर	21.06.2021
12	38211184A	एयर ब्रेक होज कपलिंग	6150 नग	24.06.2021
13	33211324	एक कोच सेट	50 सेट	28.06.2021
14	33211032A	सेकन्डरी वर्टिकल डैम्पर	1360 नग	26.06.2021
15	65215003B	लिक्विड ऑक्सीजन गैस प्लांट	1 नग	22.06.2021
		1		Un 05

पीयूबी/66/एएवी/पीआरबी/एसडब्ल्यूआर/2021-22 प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक, हबल्त

अधिक विवरण के लिए www.ireps.gov.in पर लॉग ऑन करें।

वेश अदेश इतिया BOI

बैंक ऑफ इंडिया, बुधनपुर, माजरा डबास, नई दिल्ली ११००८१

कब्जा सूचना (प्रतिभृतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के तहत प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8 के साथ पठित)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के बैंक ऑफ इंडिया, बुधनपुर, माजरा डबास, नई दिल्ली 110081 का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृतिष्ठित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार **श्री मोहित कुमार मनचंदा, फ्लैट नं** 75, तृतीय तल, पॉकेट 17, सेक्टर-22, रोहिणी, दिल्ली-110086 को मांग सूचना दिनांक 09. 09.2020 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 14.50,834.00 (रुपये चौदह लाख पचास हजार आठ सौ चौतीस) दिनांक 09.09.2020 तक और दिनांक 18.01.2020 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चें और अन्य आकिस्मक खर्चें इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भूगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार / गारंटर्स राशि का प्रतिभूगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वार कर्जदार / गारंटर्स / बंधककर्ता तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 कें साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 10.06.2021 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर्स / बंधककर्ता तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, बुधनपुर, माजरा डबास, नई दिल्ली 110081 **के प्रभार वास्ते रु**. 14,50,834.00 (रुपये चौदह लाख पचास हजार आठ सौ चौतीस) दिनांक 09,09,2020 तक और दिनांक 18.01.2020 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चें और अन्य आकिस्मक खर्चें इत्यादि सहित

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पूर्ण तृतीय तल छत के अधिकार सहित, फ्री होल्ड निर्मित सम्पत्ति नं. 75 का हिस्सा, क्षेत्रफल 28.00 वर्ग मी., जिसका प्लिथ क्षेत्रफल 28.00 वर्ग मी., पॉकेट नं. 17, सैक्टर-22, रोहिणी, दिल्ली 110086 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री मोहित कुमार मनचंदा पुत्र अजय कुमार मनचंदा के नाम पर है, सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत । चौहदी : उत्तर में – रोड, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति, पूरब में – सम्पत्ति नं. 76, पश्चिम में – सम्पत्ति नं. 74

दिनांक: 10-06-2021, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यांसयः नियर इंडस्ट्रियल ढेवलपमेंट कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार-125005 (हरियाणा) ईमेसः info@hisarmetal.com, वेबसाइटः www.hisarmetal.com फोन: (01662) 220067, 220367, 220738, फैक्स: (01662) 220265 सीआईएन: L74899HR1990PLC030937

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकत और उक्त वर्ष के लिए लागांश, यदि कोई हो, की सिफारिश करने हेत कंपनी के निदेशक गंडल की बैठक शक्रवार, 25 जन, 2021 को आयोजित की जाएगी।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.hisametal.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट

www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। कृते हिसार मेटल इंबस्ट्रीज लिमिटेड (विशेष कुमार चुघ)

कंपनी सचिव

सूचना

टाटा केपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड पंजीकृत कार्या.: 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 CIN No. U67190MH2008PLC187552

स्थानः हिसार (हरियाणा)

दिनांकः 11 जून, 2021

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत

जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तिये का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने पूर्व में ही अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे वर्णित तिथि को मांग सुचनाएं जारी कर ऋणधारक (कों)/ सह-ऋणधारक/ कों/ गारन्टर (रों) (सभी व्यक्तिगत अथव साथ- साथ ''देनदारों'' के रूप में वर्णित)/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधियों (नीचे वर्णित) को नीचे दिये गए विवरणों के अनुसार संबंधित सचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सचनाओं में वर्णित राशि के भगतान का निर्देश दिया था। उक्त सचनाओं की प्रति पंजीकत डाक ए.डी. से सर्व की गई तथा अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं। तथा उक्त देनदार (रों)/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिव प्रतिनिधियों, यदि वे ऐसा चाहें, किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी र संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के सिलसिले में, एतदद्वारा एक बार फिर से उक्त देनदारों/ सांविधिक

उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों को सुचित किया जाता है कि संबंधित सुचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त देनदारों द्वारा निष्पादित, यदि कोई हो, ऋण अनुबंध तथा अन्य दस्तावेजों/ लेखों के साथ पठित रूप में कॉलम (घ) में वर्णित संबंधित तिथि से भुगतान एवं / अथवा उगाही की तिथि तक नीचे वर्णित आगे के ब्याज के साथ उनके नामों के समक्ष यहां नीचे दर्शाई गई राशि का टीसीएचएफएल को भुगतान करें। ऋण के नियत पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभृति के रूप में क्रमशः उक्त देनदार (रों) द्वारा निम्न प्रतिभृत परिसम्पत्तियां टीसीएचएफएल के पास गिरवी रखी गई है।

क्रम सं.	सं.	प्रतिनिधियों का नाम	नीचे वर्णित तिथि को कुल बकाया राशि (रु.)*	मांग सूचना तिथि एवं एनपीए की ति
1.	10072938	श्री अमन, पुत्र राजेश (ऋणधारक) श्रीमती अनीता (सह-ऋणधारक)	8.5.2021 को रु. 15,59,210/-	8.5.2021 7.1.2021

प्रतिभृत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों/गिरवी सम्पत्तियों का विवरणः खसरा नं. 578, एरिया माप 65-520 वर्ग मी. अर्थात 705 वर्ग फीट, वार्ड हैदरगंज, ग्राम भूहर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017 प मकान का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः दिनेश कुमार का प्लॉट, पूर्वः 14 फीट चौड़ा रोड़ पश्चिमः विक्रेता का प्लॉट, दक्षिणः आरजी दीगर

3.5.2021 को 3.5.2021

		साधना मिश्रा (सह-ऋणधारक)		₹. 21,99,289/-	
۱	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अ	ाचल सम्पत्तियों ⁄गिरवी सम्पत्तियों व	ना विवर	णः प्लॉट खसरा नं. 19), ग्राम बघामः
ı	लखनऊ, उत्तर प्रदेश, एरि	रेया 69–702 वर्ग मी. के भाग पर नि	र्मित मका	न सं. ए−18 का सभी १	भाग तथा हिस्स
1	चौहद्दीः उत्तरः मकान सं.	ए-17, पूर्वः 18 फीट चौड़ा रोड, पश्	रेचमः प्लॉ	ट का दीवाल, दक्षिणः [ः]	मकान सं. ए−1

² 10322663 | श्री अनिल कुमार मिश्रा (ऋणधारक)

* आगे के ब्याज, संबंधित मांग सचना, उपरोक्त तिथि में विशेष रूप से वर्णित दर पर अतिरिक्त ब्याज, अनुषांगिक चार्जेज, लागतों, प्रभारों भुगतान एवं/ अथवा उगाही की तिथि तक वहन की गई, के साथ। यदि उक्त देनदार सीएचएफएल को उपरोक्त का भगतान करने में विफल होते हैं तो लागतों एवं परिणामों के लिये उक्त देनदार (रों सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जोखिम पर टीसीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) तथा लागु होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों के विरुद्ध आगे की

उक्त देनदार (रों)/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों को अंतरित करने से निषिद्ध किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन या उल्लंघन का प्रयास करते हैं तो वे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कैद एवं/

अथवा दंड के भागी बनेंगे। तिथि: 12.6.2021 प्राधिकत अधिकारी

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिए स्थानः लखनऊ. उत्तर प्रदेश

हाटल्स लिमटड (सीआईएन : U74899DL1981PLC011274) पंजीकृत कार्यालय : बाराखम्भा लेन, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 91-1144447777, फैक्स : 91-11-44441234, ई-मेल : corporate@thelalitcom, वेबसाइट : www.thelalit.com शेयरधारकों हेतु सूचना

(विषय : कम्पनी के इविवादी शेयरों का विनिधानकर्ता शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ)

प्राधिकरण में अन्तरण एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विनिधानकर्ता शिक्षा तथा संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (''नियम'') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार भारत होटल्स लिमिटेड (''कम्पनी'') उन सभी शेयरों को विनिधानकर्ता शिक्षा तथा संरक्षण निधि (''आईईपीएफ'') में अन्तरित करेगी जिसके परिप्रेक्ष्य में गत छः लगातार वर्षों (अर्थात वित्त वर्ष 2013-14 से 2018-19) से लाभांश अप्रदत्त अथवा अदावाकृत हैं। पुनः सूचना दी जाती है कि कम्पनी ने उन सभी शेयरधारकों को, जिनके शेयर आईईपीएफ में अन्तरित किये जाने हैं, पहले ही नियत तिथि से पूर्व लाभांश का दावा करने का परामर्श देते हुए कम्पनी के पास पंजीकृत उनके पते पर विशेष सूचना भेज दी है। उनके अदावाकृत लाभांश तथा आईईपीएफ में अन्तरित करने योग्य संगत शेयरों का विवरण उपर्युक्त सम्पर्क में उपलब्ध करा दिया गया है। कम्पनी ने अदावाकृत लाभांश तथा आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अन्तरण हेतु नियत शेयरों का विवरण अपनी वेबसाइट www.thelalit.com पर भी अपलोड कर दिया है। शेयरधारकों से अदावाकृत लाभांश तथा आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अन्तरित किये जाने योग्य शेयरों के विवरण की पुष्टि के लिए कम्पनी की वेबसाइट का सन्दर्भ लेने का निवेदन किया जाता है।

सम्बद्ध शेयरधारक ध्यान दें कि ऐसे अन्तरण पर वे कथित शेयरों सहित आईईपीएफ प्राधिकरण के लाभांश(शों) का दावा आईईपीएफ प्राधिकरण से कर सकते हैं जिसके लिए विवरण www.iepf.gov.in पर उपलब्ध हैं। यदि किसी कारणवश कम्पनी को सम्बद्ध शेयरधारकों द्वारा 9 अक्टूबर, 2021 तक या इससे पूर्व कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो कम्पनी नियमों में निर्धारित वांछनीयताओं के अनुपालन की दृष्टि से शेयरों को नियत तिथि अर्थात 31 अक्टूबर, 2021 को आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरित कर देगी।

अधिक सूचना के लिए सम्बद्ध शेयरधारक कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अन्तरण एजेंट तथा/अथवा कम्पनी के निम्नलिखित पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इकाई : भारत होटल्स लिमिटेड भारत होटल्स लिमिटेड कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32 बाराखम्भा लेन. गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली-110001 (भारत) नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032 (भारत) दूरभाष : 91-11-4444 7886/4444 7868 ई-मेल आईडी : bhlshare@thelalit.com दुरभाष : 040-6716 2222/67161517

ई-मेल आईडी :einward.ris@kfintech.com/suresh.d@kfintech.com कृते भारत होटल्स लिमिटेड

(हिमांशु पाण्डे)

स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव तथा विधि प्रमुख एवं अनुपालन अधिकारी दिनांक : 10.06.2021 एम. सं. 13531

2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

दिनांक 28.06.2021 को बेचा जाएगा। आरक्षित मुल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

DHANUKA AGRITECH LIMITED

CIN: L24219DL1985PLC020126

Date of

declaration

Due Date of

Transfer

Registered Off.: 82, Abhinash Mansion, 1st Floor, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005 | Tel. No.: Phone: 011 23534551, 23534557 Website: www.dhanuka.com | Email: investors@dhanuka.com

NOTICE FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND AUTHORITY

Pursuant to Section 124 and 125 of Companies Act, 2013 along with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") as amended from time to time, Notice is hereby given that unpaid or unclaimed Final Dividend for the Financial Year 2013-14, and Equity Shares on which dividend are unclaimed/unpaid for consecutive Seven Years or more shall be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") in the following manner:

Type of

Dividend

COLUMN TOWNS AND ADDRESS.				Lab Paragram
1	2013-14	Final	17.09.2014	23.10.2021
has alrea regarding which Di due to be RTA reco dividend The cond	ady sent specific g unpaid/unclaime vidend is unpaid / e transferred to IE ord. The Company and the Shares o cerned Shareholde	individual commit ed dividend amou unclaimed for cor PF, at their regist has also upload in its website ww er can claim the u	unication to the con int as well as Equity isecutive Seven Yea ered addresses ava ed the details of su- w.dhanuka.com inpaid/ unclaimed di	Rules, the Company cerned shareholders Shares in respect or ars or more which are ilable in Company's, ch unpaid/unclaimed ividend by making ar Transfer Agent of the Transfer Agent of the

Company or by writing to the Company, failing which the concerned Shares (held either in physical or electronic mode) shall be transferred by the Company to IEPF. No claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and Equity Shares transferred to the IEPF, pursuant to IEPF Rules, once transferred. However, Shareholders can claim both the unclaimed dividend amount and the Equity Shares transferred to IEPF from the IEPF Authority by making an application in prescribed manner as given on the website of the IEPF Authority www.iepf.gov.in. In case of any queries / clarifications, concerned shareholders may contact RTA or the Company at the below mentioned address /email / telephone number:

M/s. Abhipra Capital Limited Unit: Dhanuka Agritech Limited Abhipra Complex, A-387 Dilkhush Industrial Area, G. T. Karnal Road, Azadpur, Delhi - 110033 Tel: 011-42390909/ 708/ 783

Website: www.abhipra.com

Financial year

Metro Station, Gurugram-122 002 Tel: 0124 -434-5000 Email: rta@abhipra.com, info@abhipra.com Email: investors@dhanuka.com Website: www.dhanuka.com

Company Secretary

Dhanuka Agritech Limited

Corp. Off- Global Gateway Towers.

MG Road, Near Guru Dronacharya

By order of Board of Directors For Dhanuka Agritech Limited

Sd/

Jitin Sadana

FCS-7612

Company Secretary

Place: Gurugram Dated: 11.06.2021

कॉर्पोरेट मर्चेन्टस बैंकर्स लिमिटेड पंजी.कार्याः यूजी-24, विश्वदीप टावर, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 CIN: L74899DL1994PLC061107 E-mail ID: cmbldelhi@gmail.com Ph. No. 91-11-65382244 Website: www.cmbl.co.in

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं विनियमन 33 वे साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वा सुचित किया जाता है कि मै. कॉर्पोरेट मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 1 जून, 2021 को पंजी. कार्यालय में 3.30 बजे अप. आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 3 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष एवं तिमाही के लिरं कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथ अनमोदन किये जायेंगे।

विस्तत विवरण कम्पनी की वेबसाईट www.cmbl.co.in तथा साथ ही बीएसई लिमिटेड एवं एमएसईआई लिमिटेड जहां कम्पनी के शेय सुचीबद्ध हैं, की वेबसाईट http://www bseindia.com एवं www.msei.in पर उपलब्ध कॉर्पोरेट मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड के लिये

पार्णे वेंकटेश्वर रेड्डी स्थानः नई दिल्ली निदेशक तिथि: 11.6.2021 DIN: 06446233

AJANTA SOYA LIMITED

CIN L15494RJ1992PLC016617

Regd. Office & Works: SP-916, Phase-III,

Industrial Area, Bhiwadi-301 019, Rajasthan

Tel.: 911-6176727, 911-6128880;

Corp. Office: 12th Floor, Bigjo's Tower, A-8,

Netaji Subhash Place, Wazirpur District

Centre, Delhi - 110 034

Tel: 011-42515151, Fax: 011-42515100,

Email: cs@ajantasoya.com

Website: www.ajantasoya.com

Notice is hereby given that a meeting of the

Board of Directors of the Company will be held

Consider, discuss and approve the Audited

Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2021 in

pursuance to the Regulation 29, Regulation

33 and Regulation 47 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements

on Friday, 25th June, 2021, inter-alia:

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में } केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) रघुनाथ डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U51909DL2008PTC298927) जिसका पंजीकृत कार्यालयः शें ब नंबर 97, द् सरी मंजिल, डी.एस.आई. डी. सी कॉम्प्लेक्स बापू पार्क,कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता (तदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'सब्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए सोमवार, 07 जून 2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो. के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दुसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली—110003 पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति

आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें । शेंड नंबर 97, दूसरी मंजिल, डी.एस.आई.डी. सी कॉम्प्लेक्स बापू पार्क,कोटला मुबारकपुर,

नई दिल्ली-110003

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से रघुनाथ डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड

राजेश सिंह (निदेशक) डीआईएन: 00710583

स्थान : नई दिल्ली 🖲 पूर्वोत्तर रेलवे

ई-निविदा सुचना

गष्ट्रपति भारत सरकार की ओर से मण्डल

इंजीनियर/यां.कार. वास्ते मुख्य कारखाना

प्रबन्धक यांत्रिक कारखाना गोरखपुर द्वारा

नीचे लिखे कार्य के लिये आनलाईन

(ई—टेण्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा

Regulation, 2015; Consider, discuss and approve the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2021. The above information is also available on the website of the Company at www.ajantasoya.com and also on the website of stock exchange i.e.

www.bseindia.com.

बकाया राशियां

जिसकी वसूली

हेतु सम्पत्ति

बेची जा रही है

₹. 51,79,098.00

विनांक 07.03.2019

For Ajanta Soya Ltd Sushil Goyal Place: New Delhi **Managing Director** Date: 11.06.2021 DIN: 00125275

सम्पर्क हेत्

प्राधिकृत का नाम

एवं नं.

श्री शैलेश रंजन

आमंत्रित की जाती है। क्र.सं. : 1, ई-निविदा सूचना सं. एवं निविदा कार्य का विवरण 01-2021-06-01 याँत्रिक कारखाना-कैरिंग आउट जोन नं.-१ए याँत्रिक कारखाना एरिया सी.डब्ल्य.एम. कम्पलीट बिल्डिंग, सी.एम.टी. ऑफिस, मोटर सेक्शन, बी.टी.सी, आफिस कम्पलीट बिल्डिंग शताब्दी गेट आई.सी. गेट, मॉडल रूम, पी.आर.एस. आफिस, स्टेशनरी रूम, सभी यूनियनों का आफिस, सीआई.बी. आफिस, मेन आर.पी.एफ, पोस्ट गेट, पम्प न.-८, पावर हाउस, आन्धा बैंक, को—आपरेटिव बैंक. सॉ मिल शाप. न्य पेन्ट शाप, न्यू फर्निशिंग शाप, ट्रीमिंग सेक्सन, पेन्ट शाप, ए.सी. कोच रिपेयर शाप, फर्निशिंग-1 शाप, जी.ई.आर. शाप, बैटरी सेक्सन, मैनुफैक्चरिंग शाप, कोच वायरिंग, टेन लाइटिंग शाप एवं वेस्ट टावर्सर आर.सी. सी. टैंक, सी.से.इ./कार्य, जनरल शौचालय संख्या -01 से 05 एवं 11 से 14, हेल्थ यूनिट, लानिंग बिल्डिंग (छाजन के अतिरिक्त) सभी सिविल इंजीनियरिंग कार्य से सम्बन्धित मरम्मत कार्य। फार पी.ई. 30.06.2022. अनुमानित लागत : रु. 11863680.00, निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय : 02.07.2021, 14:00 बजे के पूर्व तक। क्र.सं. : २, ई-निविदा सूचना सं. एवं निविदा कार्य का विवरण : 01-2021-06-02 याँत्रिक कारखाना–कैरिंग आउट जोन नं. -9 बी एरिया पूर्वी ट्रैवर्सर एवं पूर्वी ट्रैवर्सर के पूरब पडने वाले शाप–पावर मेन्टीनेन्स शाप, मशीन शाप, हीट-ट्रीटमेन्ट शाप, स्मिथी शाप, कैरेज कम्पोनेन्ट शाप, मिलराईट शाप, मिलराईट शाप के पास स्थित मिटिंग हाल, गैस गोदाम, नलक्प संख्या-07, सेन्टल पार्क, हवील शाप, बेल्डिंग शाप, स्प्रिंग शाप, बोगी शाप, सेल शाप, इनकमिंग शेड, डब्ल्यू.टी. डब्ल्यू.एस. सेक्शन, मेसोनरी टैंक, इ.टी.पी. जनरल शौचालय संख्या -06, 07, 08, 09, 10 एवं भण्डार डिपो में स्थित वार्डस एवं सर्विस भवन, रे.स्.ब. पोस्ट/भ.डि. आदि (छाजन के अतिरिक्त) सभी सिविल इंजीनियरिंग कार्य से सम्बन्धित मरम्मत कार्य। पी.ई. 30.06.2022, **अनुमानित लागत** : रु. 8131840.00, निविदा जमा करने की अन्तिम **तिथि एवं समय** : 02.07.2021, 14:00 बजे के

जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय : 02.07.2021, 14:00 बजे के पूर्व तक। इस ई-निविदा का पूर्ण विवरण एवं निविदा में भाग लेने हेतु भारतीय रेल की वेबसाइट संख्या <u>www.ireps.gov.in</u> पर देखें | मण्डल इंजीनियर/यां.कार.

पूर्व तक । क्र.सं. : 3, ई-निविदा सूचना सं.

एवं निविदा कार्य का विवरण : 01-2021-06-

03 याँत्रिक कारखाना—कैरिंग आउट जोन नं.

.९ सी एरिया याँत्रिक कारखाना एवं भण्डार

डिपो में स्थित सभी प्रकार के छाजन का

मरम्मत सम्बन्धी कार्य। पी.ई. 30.06.2022.

अनुमानित लागत : रु. 6300000.00, निविदा

मुजाधि/यांत्रिक-10 यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु

भो. 09794845955 पर SMS करें ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें

मो. 8800447600 सीजीएचएस लि., मयूर विहार, फेज-।, एक्स. (मयूर ₹ 11.20 लाख तक प्लस भविष्य क कुँज) दिल्ली में स्थित (भौतिक कब्जा बैंक के पास ब्याज, आकरिमक ₹ 1.00 लाख खर्चे इत्यादि श्री शैलेश रंजन सम्पत्ति नं. जी-360 / 3, खसरा नं. 839, गली च. 66.02.155.00 2 मैसर्स नवीन कंस्टक्शन ₹ 42.00 लाख दिनांक 01.12.2019 मो. 8800447600 नं. 11, न्यू उस्मानपुर शाहदरा, नई (प्रोपराइटर श्री नवीन कुमार) ₹ 4.20 लाख तक प्लस भविष्य का दिल्ली-110053 में स्थित, (भौतिक कब्जा बैंक ब्याज, आकस्मिक ₹ 1.00 लाख

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम,

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभृति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभृत लेनदार के पास

दृष्टिबंधक / गिरवी / प्रभारित है, का कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर

निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभृत – दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से – प्रतिभृत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेत्

के पास है।) खर्चे इत्यादि ई-नीलामी की तिथि : 28-06-2021 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय : 24-06-2021 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 03.00 बजे तक

ईएमडी और अनुरोध पत्र, केवाईसी दस्तावेजों, पैन कार्ड, ईएमडी जमा करने का प्रमाण आदि

भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा-।, रिटेल

प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली-110015, फोनः 25419177, 25412977 ई-मेलः sbi.05169@sbi.co.in

आरक्षित मूल्य

धरोहर राशि (आरक्षित

मूल्य का 10%)

वृद्धि राशि

₹ 112.00 लाख

जमा करने की अंतिम तिथि व समय दिनांक 25-06-2021 अपराहन 4.00 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से

ई-नीलामी हेत् नियम व शर्ते:-

नीलामी के अधीन

आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता

(सम्पत्ति का भौतिक कब्जा)

रिहायशी फ्लैट सर्वे नं. सी-602, जोकि नगरजुना

1. ई--नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी। यह नीलामी बैंक वेबपोर्टल https://ibapi.in के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्तें आदि निविदा दस्तावेज ibapi के ई—नीलामी प्लेटफार्म 2. अबोहस्ताबरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रभार नही है। तथापि इच्छूक बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों)

के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(याँ) को प्रभावित करने वाले दावाँ / अधिकारों / बकाया राशियाँ के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता / वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही कोई वचनबद्धता / प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा सम्पत्ति(यों) की बिक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभारो / ऋणभारो के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के

दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। यह ई—नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुर्निनर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अनुसार की जायेगी। 4. ई-नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों https://ibapi.in & https://www.mstcecommerce.com पर प्रकाशित की गई है।

कर दें इसमें असफल होने पर उक्त सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी। तथा बकाया राशि यदि कोई हो तो ब्याज व लागत सहित वसूल की जायेगी। दिनांक: 11.06.2021 स्थानः देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

www.readwhere.com

मुल्यांकन खर्च फीस आदि जो किसी भी व्यक्ति विशेष की हो स्वयं वहन करना होगा।

सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य यानि अधिकतम बोली राशि का ईएमडी राशि के अतिरिक्त 25% प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार किये जाने के तुरन्त पश्चात जमा कराना होगा। शेष बकाया राशि उसे 15 दिन या उसके अन्दर जमा कराना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भगतान के असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। (10) इच्छुक व वैथ निविदाकर्ता को सभी खर्चे जैसे स्टाम्प इयुटी/अतिरिक्त स्टाम्प इयुटी/ट्रांसफर चार्जेज फीस आदि व अन्य सभी सांविधिक/गैर सांविधिक देय राशि, कर दरें,

एक्स्टेंशन स्कीम, ग्राम धीनना की धानी, पाल, जोधपुर, एरिया माप २४०० वर्ग फीट, प्लॉट नं. २९५ एवं ३०८, खसरा नं. 546/1, वैशाली सिटी विस्तार योजना पाल धीनना की धानी, सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल जोधपुर, राजस्थान-342001

सूचना

OSBI

कर्जदार(बी) /

गारंटर(रों)(जी) का

नाम एवं पता

1 श्री अरविन्द नारायण सिंह

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों

का विवरण

अचल सम्पत्ति खसरा नं. 609, वार्ड नं. 22, माप 193.66 वर्ग

यार्ड्स, भागा सिंह सर्किल, बलोत्रा, राजस्थान-344022 का

सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः श्री जगदीश

का प्लॉट, पूर्वः श्री रमेश का प्लॉट, पश्चिमः श्री चम्पालाल का

अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 308, खसरा नं. 546/1, वैशाली सिटी

र्ड नीलामी की तारीख और समय

दिनाकः 15.07.2021

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज तथा लागू शुल्कों के साथ उपरोक्त बकाये का भुगतान करें अन्यथा इस सूचना के 60 दिनों की समाप्ति के बाद सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके अंतर्गत लागू नियमों के अंतर्गत ऋणधारकों तथा मार्टगैजरों की प्रतिभत परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेने सहित प्रतिभत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध आगे कार्रवाई की जायेगी।

कृपया ध्यान रहे कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत ऋणधारक प्रतिभूत क्रेडीटर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना सूचना में वर्णित अपनी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा या किसी अन्य रूप से अंतरण नहीं करेंगे।

तिथि: 12 जून, 2021 (जोयल नादर) प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः राजस्थान एसबीएफसी फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड आंचलिक कार्यालय, देहरादूनः महावीर टॉवर, सेंट जूड्स, क्रोसिंग, ई–नीलामी वैंक ऑफ़ इंडिया शिमला बायपास रोड, सेवला कलां, जिला देहरादून-248171

फोन नं0: 0135—2640046, 2641002, Email: Dehradun.ARD@bankofindia.co.in

वर्णित परिशिष्ट-IV क [नियम 8(6) परन्तुक देखें] अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभृति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल / अचल संपत्ति जो व्रतिभृति लेनदार के पास

ईएमडी और दस्तावेजों को जमा

करने की अंतिम तिथि और समय

दिनाकः 12.07.2021

दुष्टिबंधक / प्रभारित है, का प्रलक्षित / वास्तविक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता है) प्रतिभृति लेनदार के प्राधिकत अधिकारी, बँक ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीलाम किया जायेगा। *नीलामी के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया दी गई वेबसाइट (a) https://www.bankofindia.co.in/(b) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/lbapi/index.jsp/(c) https://www.eprocure.gov.in. देखें

प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक सायं 05.00 बजे तक ऑनलाइन/ संबंधित शाखा से सम्पर्क करें 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ ऑफलाइन से आरक्षित मूल्य खाते का नाम/ प्राधिकृत अधिकारी का मांग नोटिस तिथि। चल/अचल सम्पत्ति/यों का एनपीए खाते का आरटीजीएस / एनईएफटी नाम/फोन नंबर/ ईएमडी बकाया राशि सं. नाम एवं शाखा द्वारा ईएमडी जमा बोली वृद्धि राशि कब्जा सूचना र्डमेल आईडी खाताः मध्यस्य इनवर्ड आउटवर्ड श्रीमती बिन्द् रानी 05.02.2019 1. श्रीमती शशि बंधक द्रिपल स्टोरी सम्पत्ति के सभी भाग 8.70 लाख ₹0 6,15,572 दिवी पत्नी धनीराम। व भूखंड, भूमि खतीनी खाता नं0 110, खाता सख्याः 0.90 लाख + ब्याज व अन्य 2. श्री धनीराम पत्र खसरा नं0 74डीए, स्थित ग्राम-कांशी रामपुर 01382-222117

69419020000033 खर्चे दिनांक हरदेव सिंह ऋणी- पट्टी सुखेरो, तहसील- कोटद्वारा, जिला-E Mail I.D -Dehradun. IFSC: BKID0006941 0.10 लाख 31.01.2019 सं शाखाः कोटद्वार पीड़ी, गढ़वाल। ARD@bankofindia.co.in नियम व शर्तै:- (1) सम्पत्तियों की ई-नीलामी ऑनलाइन वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp के माध्यम की जायेगी। पांच मिनट के विस्तार के साथ निर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार होगी, टॉल फी नं0 18001025026, संपर्क व्यक्ति ऋतेश नाथ मो0 नं0: 09668551395, ई-मेल

rnath@msctindia.co.in एवं राकेश रंजन, मी0 नं0 09911700233, ई-मेल आइडी: rranjan@mstcindia.co.in से प्राप्त किया जा सकता है। (2) उथारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपवंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। (3) बोलीदाताओं को एमएसटीसी के नियमों के अनुसार केवाईसी दस्तावेज व पंजीकरण शुल्क https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/ index.jsp पर निलामी की तिथि से पडले जमा कराना होगा पंजीकरण प्रक्रिया में न्युनतम दो कार्यदिवस लगते हैं। (पंजीकरण प्रक्रिया उपरोक्त वेबसाइट पर विस्तृत हैं) (4) इच्छ्क बोलीदाता ईएमडी राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के द्वारा जारी किये गये अपने बौली खाते में जमा कराकर https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp. पर चालान जारी करवा ले (5) इच्छुक बोलीदाता को यह ध्यान रखना चाहिए कि नीलामी की तारीख से कम से कम एक दिन पहले ईएमडी को स्थानांतरित कर दिया जाए एवं पण्टि करें कि M/s. MSTC Ltd के साथ रखा गया उसका वॉलेट ईएमडी राशि को दर्शाता है जिसके बिना सिस्टम बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। (6) असफल बोलीदाता की ईएमडी को M/s MSTC Ltd. के साथ बनाए गए अपने संबंधित वॉलेट में वापस कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाता को M/s MSTC Ltd से ईएमडी राशि को अपने बैंक खाते में वापस करने के लिए अनुरोध करना होगा। (7) सफल बोलीकर्ता की EMD राशि बैंक के पास ही रहेगी। (8) EMD राशि पर बैंक द्वारा कोई भी व्याज देय नहीं होगा। (9)

सरफेसी एक्ट 2002 नियम 8(5) एवं नये प्रावधान उप 1 से नियम 6 प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) के अन्तर्गत 30 दिन का वैधानिक बिक्री सूचना अनुवर्ती बिक्री हेतु उपर्युक्त उधारकर्ता / गारंटीकर्ता / बंधककर्ता को नोटिस दी जाती है कि वे ई—नीलामी की तिथि से पूर्व अपना कुल बकाया ब्याज व अन्य खर्चे सहित जमा

दिनांक 11-06-2021, स्थान : नई दिल्ली

हस्ता०/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक